

The Gazette of India



सत्यमेव जयते

EXTRAORDINARY

PART I—Section 1

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 134)

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 1962/SRAVANA 29, 1884

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

RESOLUTION

TARIFFS

New Delhi, the 20th August, 1962

No. 4(1)-T.R./62.—The Tariff Commission has submitted its Report on the Review of protection to the Antimony Industry on the basis of recommendation (3) accepted in Government of India, Ministry of Commerce and Industry Resolution No. 4(1)-T.R./58, dated the 27th October, 1958. Its recommendation is:—

The existing rates of protective duty, namely, 25 per cent *ad valorem* on crude antimony and 45 per cent *ad valorem* or Rs. 88.60 per quintal, whichever is higher, on antimony metal should be continued for the remaining period of protection granted to the industry, i.e. till 31st December, 1963.

2. Government accept this recommendation. As the Tariff Commission has not recommended any change either in the existing *ad valorem* duty or in the existing period of protection, no legislation will be undertaken in Parliament.

3. The Tariff Commission has also observed that Star Metal Refinery Limited has improved its financial position and if the progress recorded during the last three years is maintained in future, the company may hope to improve further and stabilise its finances. The attention of the Star Metal Refinery Private Limited Bombay, is invited to this observation.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

B. N. ADARKAR, Joint Secy.

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

संकल्प

प्रभारावलि

नई दिल्ली, तारीख 20 अगस्त 1962

सं० 4(1)—प्र० प्र०/62—भारत सरकार, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प सं० 4 (1)—प्र० प्र०/58, तारीख 27 अक्तूबर, 1958 में स्वीकृत सिफारिश (3) के आधार पर प्रभारावलि आयोग ने सुरमा उद्योग संरक्षी का पुनर्विलोकन करके उस पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। आयोग की सिफारिश इस प्रकार है :—

उद्योग की अनुवत्त संरक्षा की शेष अवधि अर्थात् 31 दिसम्बर, 1963 तक संरक्षा शुल्क की वर्तमान दरें, अर्थात् अपरिष्कृत सुरमे पर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार और सुरमा धातु पर 45 प्रतिशत मूल्यानुसार या 88 रु० 60 न० पे० प्रति क्विंटल, इसमें से जो भी अधिक हो वह, जारी रखी जानी चाहिएं।

2. सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है। चूंकि प्रभारावलि आयोग ने वर्तमान मूल्यानुसार शुल्क में और संरक्षा की वर्तमान अवधि में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है अतः संसद में कोई विधान प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

3. प्रभारावलि आयोग ने यह विचार भी प्रगट किया है कि स्टार मैटल रिफाइनरी लि० ने अपनी वित्तीय स्थिति सुधार ली है और यदि कम्पनी की गत तीन वर्षों में हुई प्रगति मविष्य में भी जारी रही तो आशा की जा सकती है कि कम्पनी और प्रगति करेगी तथा उसकी वित्तीय स्थिति सुबुद्ध हो जाएगी। स्टार मैटल रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया गया कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं को भेजी जाए तथा इसे भारत के गजट में प्रकाशित कराया जाए।

बी० एन० अदरकर,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार।